



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941

No. 204]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2019/JYAISTHA 17, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

(मार्च, 2019 के 29 वें दिन पारित )

मुंबई, 7 मई, 2019

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

**सं. टीएएमपी/79/2018-विविध.**—इस प्राधिकरण ने 18 जनवरी, 2019 को आयोजित 164वीं बैठक में महापत्तन न्यासों के प्रशुल्क निर्धारण के लिये महापत्तन न्यास प्रशुल्क निर्धारण नीति, 2018 को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी दिशानिर्देश अधिसूचित करने हेतु प्रारूप अधिसूचना के साथ कार्यसूची टिप्पणी का अनुमोदन किया। उक्त कार्यकारी दिशानिर्देश भारत के राजपत्र, असाधारण, (भाग III, खण्ड 4) में 30 जनवरी, 2019 के राजपत्र संख्या 29 में अधिसूचित हुये। उन्हे हमारे 04 फरवरी, 2019 के पत्र के द्वारा सभी महापत्तन न्यासों को संसूचित किया गया।

2.1. यह पाया गया है कि महापत्तन न्यास प्रशुल्क निर्धारण नीति, 2018 को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचित कार्यकारी दिशानिर्देशों में गलती से कुछ अशुद्धियां रह गयीं।

2.2. उक्त को देखते हुये, अशुद्धियों का ब्योरा और उनके सुधार का विस्तृत ब्योरा निचे दिया गया है:

क्रम संख्या	महापत्तन न्यास प्रशुल्क निर्धारण नीति, 2018 को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी दिशानिर्देशों का संदर्भ	जैसा अधिसूचना में है	नीचे दिये गए अनुसार पढ़ा जाये
1	महापत्तन न्यासों के प्रशुल्क निर्धारण के लिये महापत्तन न्यास प्रशुल्क नीति, 2018 के अंतर्गत वार्षिक राजस्व अपेक्षा के परिकलन का फार्म 1 का क्रमांक 8	वर्ष 4 के लिए 100% की दर से लागू थोक मूल्य सूचकांक का एआरआर में सूचकांकन उदाहरणार्थ यदि वर्ष 4 2018-19 है तो लागू थोक मूल्य सूचकांक @ <b>3.85%</b> और वर्ष 4 का सूचकांकित एआरआर (7)*(1.0385) होगा।	वर्ष 4 के लिए 100% की दर से लागू थोक मूल्य सूचकांक का एआरआर में सूचकांकन उदाहरणार्थ यदि वर्ष 4 2018-19 है तो लागू थोक मूल्य सूचकांक @ <b>3.45%</b> और वर्ष 4 का सूचकांकित एआरआर (7)*(1.0345) होगा।
2	क्रमांक क 3 खंड 3.2 में प्रस्ताव को दायर और संसाधन की प्रक्रिया	प्राधिकरण को दायर किये जाने वाले महापत्तन न्यास दरमान का प्रारूप कार्यनिष्पादन मानकों सहित महापत्तन न्यास अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और 15 दिन के भीतर पत्तन तथा प्राधिकरण का ई-मेल का पूरा पता संबंधित हितधारक/प्रयोक्ता की टिप्पणी के लिए देगा। महापत्तन न्यासों द्वारा संबंधित प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठनों को भी सूचित किया जाएगा। इसके साथ साथ महापत्तन न्यास, इसे लागत प्रपत्र में डालने की तारीख के 3 दिन के भीतर, कार्य निष्पादन मानकों सहित, प्रस्तावित दरमान, इन कार्यकारी दिशानिर्देशों के साथ संलग्न लागत प्रपत्र में प्राधिकरण को भी प्रस्तुत करेगा।	प्राधिकरण को दायर किये जाने वाले महापत्तन न्यास दरमान का प्रारूप कार्यनिष्पादन मानकों सहित महापत्तन न्यास अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और 15 दिन के भीतर पत्तन तथा प्राधिकरण का ई-मेल का पूरा पता संबंधित हितधारक/प्रयोक्ता की टिप्पणी के लिए देगा। महापत्तन न्यासों द्वारा संबंधित प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठनों को भी सूचित किया जाएगा। इसके साथ साथ महापत्तन न्यास, इसे वेब साईट पर डालने की तारीख के 3 दिन के भीतर, कार्य निष्पादन मानकों सहित, प्रस्तावित दरमान, इन कार्यकारी दिशानिर्देशों के साथ संलग्न लागत प्रपत्र में प्राधिकरण को भी प्रस्तुत करेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./89/19]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

## CORRIGENDUM

(Passed on this 29<sup>th</sup> day of March 2019)

Mumbai, the 7th May, 2019

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

**No.TAMP/79/2018/Misc.**—This Authority in its 164<sup>th</sup> meeting held on 18 January 2019 has approved the Agenda note along with draft Notification to notify the Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy for Major Port Trusts, 2018 for determination of tariff for Major Port Trusts. The said Working Guidelines has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 30 January 2019 vide Gazette No.29 which was communicated to all Major Port Trusts vide our letter dated 04 February 2019.

2.1. It has been noticed that inadvertently, some errors have crept in the notified working guidelines to operationalize the Tariff Policy for Major Port Trusts, 2018.

2.2. In view of the above, the details of the errors and the corrections made are detailed below :

Sl. No.	Reference to the Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy for Major Port Trusts, 2018	As appeared in the Notification	To be read as given below
1.	Form 1 of Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2018 for determination of Tariff for Major Port Trusts at Sr. No. 8	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2018-19, then the applicable WPI is <b>3.85%</b> and the indexed ARR for the year Y4 will be (7) x <b>1.0385</b> ).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2018-19, then the applicable WPI is <b>3.45%</b> and the indexed ARR for the year Y4 will be (7) x <b>1.0345</b> ).
2	Procedure for filing and processing the proposal at Clause 3.2. of Sr. No. 3	The Major Port Trusts shall host the entire proposal to be filed before TAMP in its website and give the designated email address of Port as well as TAMP for comments of relevant stakeholder / users within 15 days' time. This will also be intimated by the Major Port Trust to the concerned users/ user organisations. Simultaneously, the Major Port Trusts should file the SOR along with the proposed Performance Standards to TAMP within 3 days from the date of its <b>hosting in the cost formats attached to this Working Guidelines.</b>	The Major Port Trusts shall host the entire proposal to be filed before TAMP in its website and give the designated email address of Port as well as TAMP for comments of relevant stakeholder / users within 15 days' time. This will also be intimated by the Major Port Trust to the concerned users/ user organisations. Simultaneously, the Major Port Trusts should file the SOR along with the proposed Performance Standards to TAMP within 3 days from the date of its <b>hosting in the website alongwith cost formats attached to this Working Guidelines.</b>

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./89/19]